



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

सं. 388]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 2, 1982/भाद्र 11, 1904

No. 388]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 2, 1982/BHADRA 11, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

स्टॉक एक्सचेंज प्रभाग

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 2 सितम्बर, 1982

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

Stock Exchange Division

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 2nd September, 1982

का. आ. 624(अ) :—केन्द्रीय सरकार, पुणे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड पुणे द्वारा प्रतिभूत संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42आ) की धारा 3 के अन्तर्गत मान्यता के लिए दिए गए आवेदन-पत्र पर विचार करने और इन बातों से सन्तुष्ट होने के बाद कि ऐसा करना व्यापार के हित में तथा लोक हित में भी होगा, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 4 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा, उपर्युक्त एक्सचेंज को उपर्युक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन 2 सितम्बर, 1982 से आरम्भ होने वाली और 1 सितम्बर, 1987 को समाप्त होने वाली पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रतिभूतियों के संविदाओं के सम्बन्ध में ऐसी शर्तों के अधीन जो बाद में निर्धारित की जाएगी या लागू की जाएगी, मान्यता प्रदान करती है।

S.O. 624(E).—The Central Government, having considered the application for recognition made under section 3 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956), by the Pune Stock Exchange Limited, Pune and being satisfied that it would be in the interest of the trade and also in the public interest so to do, hereby grants, in exercise of the powers conferred by section 4 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956, recognition to the said Exchange under section 4 of the said Act, for a period of five years commencing on the 2nd September, 1982 and ending with 1st September, 1987 in respect of contracts in securities subject to such conditions as may be prescribed or imposed hereafter.

[No F. 1/41/SE/81]

का. आ. 625(अ) :—चूंकि महाराष्ट्र राज्य के पुणे महानगर क्षेत्र की सीमाओं के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में प्रतिभूतियों के लेन-देन के स्वरूप और उनकी मात्रा को ध्यान में रखते हुए, केन्द्रीय सरकार इस बात से सन्तुष्ट है कि ऐसा करना आवश्यक है ;

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त

[संख्या एफ 1/41/एस ई /81]

शक्तियों का प्रयोग करने हुए, हम अधिसूचना द्वारा घोषणा करती हैं कि उपर्युक्त धारा 13 उपर्युक्त क्षेत्र पर लागू होगी।

[संख्या एफ 1/41/एम ई /81]

**S O 625(E).**—Whereas the Central Government is satisfied having regard to the nature and volume of transactions in securities in the area covered by the Pune Metropolitan region in the State of Maharashtra, that it is necessary so to do

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 13 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956), the Central Government hereby declares that the said section 13 shall apply to the said area

[No F 1/41/SE/81]

**का. आ. 626(अ)**—केंद्रीय सरकार प्रतिभूति सचिवा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 13 की

उप धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए हम अधिसूचना द्वारा 2 सितम्बर, 1982 को ऐसा दिनांक निर्धारित करती हैं जिस दिन से उक्त अधिनियम की धारा 13 महाराष्ट्र राज्य के पुणे महानगर क्षेत्र की सीमाओं के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र में लागू हो जाएगी।

[संख्या एफ 1/41/एम ई /81]

कुमारी कुसुम लता मिट्तल, अवर सचिव

**S O 626(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 19 of the Securities Contracts (Regulation) Act 1956 (42 of 1956), the Central Government hereby appoints the 2nd day of September, 1982, as the date on which section 19 of the said Act shall come into force in the area covered by the Pune Metropolitan region in the State of Maharashtra

[No F 1/41/SE/81]

KUM KUSUM LATA MITTAL, Addl Secy